

Department of History

Dayanand College Hisar

Annual Report

2022-23

- Bridge course for the session started by the department as per the requirement of student according to syllabus and semester for BA 2nd year and 3rd student it was organised between August 16th to August 23rd 2022 and for BA 1st year student it organised from 2nd September to 10th September 2022.
- Quiz Contest as the Annual feature of the department was organised on 13th October 2022. In this contest, team of Ravinder Kumar, Bhavuk Kumar and Siddharth Sharma of BA 2nd year got First prize and team of Priyanka, Ankush and Bhoomika of BA Final student got second prize and Ajay, Kuldeep Sharma and Kanika of BA final begged third prize.
- Formation of History Association for the Session 2022-23 held on 2nd September 2022. Sandeep Kumar, BA III, Roll no. 203042250652 became President and Kamal of BA II Roll no. 213042250491 became Secretary.
- Shahid Bhagat Singh Jayanti Celebrated by the Department on 28-09-2022. Principal Dr. Vikramjit Singh all three teachers and Office Bearer of History Association pay tribute to Shahid Bhagat Singh. Dr. Mahender Singh Head of the Department addresses the students on work and achievements of Shahid Bhagat Singh.
- Annual exhibition of the History department organise between 9th February 2023 to 15th February 2023. On the Eve of Bicentenary of the birth of Maharishi Dayanand Saraswati. Theme of the exhibition was teaching and legacy of Swami Dayanand Saraswati. Opening of the exhibition held on 10th February. Chief Guest on the Occasion were Ch. Hari Singh Saini, President Arya Samaj, Lala Lajpat Ray, Hisar and Shri Ramesh Likha,

Secretary DAV College Managing Committee. On this occasion Dr. Mahender Singh HOD History explain the exhibition and rare document related to Swami Dayanand Saraswati. In the opening Principal Vikramjit Singh welcome and explain the purpose of annual exhibition. Stage was conducted by Dr Suruchi Sharma and both guest express their view and address the student on the theme. Closing of the exhibition was held on 15th February. The famous Arya samajist Shri Aryavesh was the Chief Guest and main speaker. He express his view on the theme as well as life and teaching of Swami Dayanand Saraswati.

- Department of History organised a local visit to Historical site at Hisar on 25th February 2023. 400 Student of the department participate in this visit. All three teacher of the department divided the student in groups and explain about the importance art, architecture and feature of Hisar Fort. College student ask many question regarding the Hisar Fort. Lastly student also visits Gujari Mahal of Hisar.
- On April 6th 23 One day special workshop organised on Strategic Information Warfare and National Security by the department with the collaboration of Department of Defence Studies. In this workshop Key Note Speaker was Dr S. K. Mishra and Expert was Dr. Pragya Kaushik. Theme of workshop and importance was explained by the expert in present scenario. Both speaker first deliver their ideas and after that answer the question of students.
- On the Eve of Dr Ambedkar Jayanti on 13th April 2023 a talk was organised by the Department of History with the collaboration of department of Political Science, Public Administration and Defence Studies. Dr Mahender Singh, HOD History deliver a talk on relevance and thought of Dr Ambedkar in Contemporary Era. Principal Dr. Vikramjit Singh also addresses the gathering and stress on the importance of such functions in academic institutions. After discussion of question answer session also organised for the students.

Rakhigadhi is prominent place of Harappan civilization and part of Hisar district. In this year excavation is going on by ASI or Archaeological Survey of India. In the leadership of deputy director Dr Sanjay Manjul. Department of History organise a visit regarding excavation of Rakhigadhi. 145 students visit the Historical site as Mound no. 1, 3, 4 and 7. Expert of ASI explain about the importance of the site as well as they explain the material which has been excavated from the different layer of Rakhigadhi

• Department of History also organise a local visit to Hisar City, mainly Krantimaan Park and Historical Church of Hisar. Dr. Mahender Singh explain the importance of Krantimaan Park and the event of 1857 in Hisar as well as art and architecture of Church and importance was explained by Mr. David in the Church. Assistant Professor Shri Mahender Singh also explain the historical sites and organise question answer session for the students.

• On 28 April 23 Department History mark a new important event in the history of department and MOU has been signed with Gandhi adhyayan Kendra Sarvoday bhavan Hisar. According to this MOU both institution will work together for the growth of students as well as youth throw activity on Mahatma Gandhi. Both institution walk together for the betterment of society on the important thought. Principal Dr. Vikramjit Singh, Dr. Mahender Singh, HOD history and other teacher of history department Dr Suruchi Sharma and Shri Mahender Singh were the party from college side and Shri Dharmveer Sharma manager of Sarvoday Bhavan Hisar represent the Sarvodaya Bhavan Hisar.

**Dr. Mahender Singh, Head
Department of History**




व्याजम् सराज
(1924-1955)

MAHATMA HANSRAJ
(18 April 1904 - 20 Nov. 1980)

WE PAY TRIBUTE
ON HIS BIRTH
DEPT

GPS Map Camera


Hisar, Haryana, India
5P58+M2M, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana
125001, India
Lat 29.158822°
Long 75.71507°
28/09/22 11:40 AM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera



Hisar, Haryana, India

5P58+M2M, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana

125001, India


Lat 29.158822°

Long 75.71507°

28/09/22 11:34 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Hisar, Haryana, India

5P58+M2M, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana

125001, India

Lat 29.158822°

Long 75.71507°

28/09/22 11:41 AM GMT +05:30



Hisar, Haryana, India

5P58+M2M, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana

125001, India

Lat 29.158822°

Long 75.71507°

28/09/22 11:34 AM GMT +05:30

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्विशताब्दी जयंती समारोह

दयानन्द महाविद्यालय में प्रदर्शनी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रमों का शुभारंभ

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 10 फरवरी : दयानन्द

महाविद्यालय, हिसार के इतिहास विभाग के आर्यसमाज के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्विशताब्दी समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्विशताब्दी समारोह की कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा वर्षभर आयोजित किया जाएगा। इस कड़ी में दयानन्द महाविद्यालय में आज स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनवृत कार्यों तथा आर्य समाज के योगदान को दर्शाते हुए दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि चौ. हरि सिंह सैनी, प्रधान, आर्य समाज लाला लाजपत राय चौक, नागोरी गेट, हिसार, श्री रमेश लीखा, सचिव, डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली तथा श्री अनिल कुमार सहायक निदेशक डिविजनल अभिलेखागार, हिसार एवं

श्री देवेन्द्र उप्पल, सदस्य, डी.ए.वी. कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी, नई दिल्ली रहे। कालेज में सर्वप्रथम विशेष यज्ञ का आयोजन ब्राह्म महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रमोद योगार्थी के द्वारा किया गया। फिर प्रदर्शनी का अवलोकन रहा। इस प्रदर्शनी में स्वामी जी का टकारा (गुजरात) में प्रारम्भिक जीवन, गुरु विरजानन्द दण्डी से शिक्षा, आर्यसमाज की स्थापना, विभिन्न



तरह के कार्यों, अजमेर में जीवन आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएं डी.ए.वी. एवं गुरुकुल प्रणाली, लाला लाजपत का हिसार प्रवास, हिसार क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों तथा स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को दर्शाते चित्र आकर्षण का केन्द्र रहे। इसी कड़ी में अतिथियों द्वारा महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा स्थापित संग्राहलय व अभिलेखागार का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर सर्वप्रथम डॉ. मोनिका कक्कड़, प्रभारी आर्य समाज द्वारा अतिथियों का अभिवादन किया गया तथा कार्यक्रम का परिचय भी दिया। डॉ. महेन्द्र सिंह, इतिहास विभाग द्वारा प्रदर्शनी का उद्देश्य, महत्व, आर्य समाज की भूमिका व महत्व तथा स्वामी दयानन्द के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व व कृतितत्व पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथि चौधरी हरि सिंह सैनी ने अपने

संबोधन में विद्यार्थियों को सीख दी कि वे स्वामी दयानन्द से प्रेरणा लें। उन्हें कालेज को आर्य समाज द्वारा हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन भी दिया। श्री रमेश लीखा जी द्वारा आर्य समाज के मूल्यों व आदर्शों को रेखांकित किया गया तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को वर्णित किया। श्री अनिल कुमार जी द्वारा आर्य समाज से सम्बन्धित दस्तावेजों तथा उनके रखरखाव के महत्व पर जोर दिया।

श्री देवेन्द्र उप्पल ने अपने सम्बोधन में विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे नई विचारधार के साथ वेदों को भी अपनाएं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह द्वारा भारतीय जनमानस के जीवन में आर्य समाज, हरियाणा के सांस्कृतिक धरोहर में आर्य समाज के महत्व को विशेष तौर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने महाविद्यालय में इस विषय पर वर्षभर चलने वाली गतिविधियों पर

भी चर्चा की। डॉ. विवेक श्रीवास्तव द्वारा अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी उनमें मार्गदर्शन देते रहने का अनुरोध किया। यह प्रदर्शनी इतिहास परिषद के तत्वाधान तथा मेहनत का प्रतिफल रही तो उनकी उपस्थिति व भूमिका सराहनीय रही। इस कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. सुरुचि शर्मा, इतिहास विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर इतिहास विभाग के प्राध्यापक श्री महेन्द्र सिंह, आर्य समाज से जुड़े शिक्षक, कॉलेज गवर्निंग बॉडी के सदस्य श्री मंजीत सिंह, श्री अनिल शर्मा, शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री विजय सिंह, सचिव श्री चेतन शर्मा, गैर-शिक्षक स्टाफके प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र कादियान के साथ-साथ शिक्षक स्टाफ व गैर शिक्षक स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। यह प्रदर्शनी 15.02.2023 तक विद्यार्थियों तथा जनसामान्य के लिए खुली रहेगी।



DAYANAND COLLEGE, HISAR

Bicentennial Celebration and Exhibition on

SWAMI DAYANAND SARASWATI

9-2-2023 to 15-2-2023

ORGANISED BY :-
ARYA SAMAJ & DEPARTMENT OF HISTORY



A panel discussion is taking place on a stage. A woman is speaking at a podium decorated with marigolds. A panel of nine men and one woman are seated on a white sofa, each with a water bottle and a microphone. The stage is decorated with garlands and flowers.



AMI DAYANAND SARASWATI

9-2-2023 to 15-2-2023

ORGANIZED BY :-
DEPARTMENT OF HISTORY



स्वामी दयानंद सरस्वती के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई

भाई सिटी रिपोटर

हिसार। दयानंद महाविद्यालय के इतिहास विभाग के आर्यसमाज के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनवृत्त कार्यों व आर्य समाज के योगदान को दर्शाते हुए दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई।

विशिष्ट अतिथि आर्य समाज नागोरी गेट के प्रधान चौधरी हरि सिंह सैनी, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के सचिव रमेश लोखा, अभिलेखांगर विभाग के सहायक निदेशक अनिल कुमार देवेन्द्र उप्पल रहे।

ब्राह्म महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रमोद योगाधी ने हवन यज्ञ कराया। प्रदर्शनी



हिसार में दयानंद महाविद्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन करते अतिथिगण। भाई

में स्वामी दयानंद सरस्वती का टकारा (गुजरात) में प्रारम्भिक जीवन, गुरु बिरजानन्द दंडी से शिक्षा, आर्यसमाज की स्थापना, विभिन्न तरह के कार्यों, अजमेर में जीवन आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएं डीएवी एवं गुरुकुल प्रणाली, लाला लाजपत का हिसार प्रवास, हिसार क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों तथा स्वतंत्रता

संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को दर्शाते चित्र आकर्षण का केंद्र रहे। महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा स्थापित सवालरूम व अभिलेखांगर का अवलोकन भी किया। आर्य समाज प्रभारी डॉ मोनिका कक्कड़ ने अतिथियों का अभिवादन किया गया तथा कार्यक्रम का परिचय भी दिया। डॉ महेंद्र सिंह, इतिहास

विभाग द्वारा प्रदर्शनी का उद्देश्य, महत्व, आर्य समाज की भूमिका व महत्व तथा स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व व कुतिलत्व पर प्रकाश डाला गया। चौधरी हरि सिंह सैनी ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को सोख दी कि वे स्वामी दयानंद से प्रेरणा लें। रमेश लोखा ने स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को वर्णित किया। अनिल कुमार ने आर्य समाज से संबंधित दस्तावेजों व उनके रखरखाव के महत्व पर जोर दिया। प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में इस विषय पर गतिविधियां वर्षभर चलेंगी। कार्यक्रम का मंच महापालन डॉ सुरेश शर्मा ने किया। इस मौके पर मंजीत सिंह, अनिल शर्मा, विजय, चेतन, सुरेंद्र सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

JAGARAN 11-2-23

आर्य समाज के योगदान को दर्शाते चित्रों की प्रदर्शनी लगाई

जागरण संवाददाता, हिसार : दयानंद महाविद्यालय, हिसार के इतिहास विभाग के आर्यसमाज के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्विशताब्दी समारोह की कुतल राष्ट्र द्वारा वर्षभर आयोजित किया जाएगा। इस कड़ी में दयानंद महाविद्यालय में शुक्रवार स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनवृत्त कार्यों और आर्य समाज के योगदान को दर्शाते हुए दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में स्वामी का टकारा (गुजरात) में प्रारम्भिक जीवन, गुरु बिरजानन्द दंडी से शिक्षा, आर्यसमाज की स्थापना, विभिन्न तरह के कार्यों, अजमेर में जीवन आर्य समाज की



दयानंद महाविद्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गणमान्य। • दिव्य

शिक्षण संस्थाएं डीएवी एवं गुरुकुल प्रणाली, लाला लाजपत का हिसार प्रवास, हिसार क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों और स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को दर्शाते चित्र आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि

चौ हरि सिंह सैनी, प्रधान, आर्य समाज लाला लाजपत राय चौक, नागोरी गेट, रमेश लोखा, सचिव, डीएवी मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली और अनिल कुमार सहायक निदेशक डिभिजनल अभिलेखांगर एवं देवेन्द्र उप्पल, सदस्य, डीएवी कॉलेज

मैनेजमेंट कमेटी, नई दिल्ली रहे। कॉलेज में सर्वप्रथम विशेष यज्ञ का आयोजन ब्राह्म महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रमोद योगाधी के द्वारा किया गया। फिर प्रदर्शनी का अवलोकन रहा।

डॉ महेंद्र सिंह, इतिहास विभाग द्वारा प्रदर्शनी का उद्देश्य, महत्व, आर्य समाज की भूमिका व महत्व और स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथि चौधरी हरि सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को सोख दी कि वे स्वामी दयानंद से प्रेरणा लें। रमेश लोखा द्वारा आर्य समाज के मूल्यों व आदर्शों को रेखांकित किया गया और भारत के स्वातंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को वर्णित किया।

BHASHKAR 11-2-23

चित्रों से स्वामी दयानंद की जीवन यात्रा को दर्शाया



हिसार। दयानंद कॉलेज के इतिहास विभाग और आर्य समाज के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यज्ञ का आयोजन ब्राह्म कॉलेज के प्राचार्य डॉ प्रमोद योगाधी ने किया। उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। डीएन कॉलेज में आयोजित प्रदर्शनी में गुरु बिरजानन्द दंडी शिक्षा, आर्य समाज की स्थापना, अजमेर में

जीवन, आर्य समाज के शिक्षण संस्थान, डीएवी एवं गुरुकुल प्रणाली, लाला लाजपतराय का हिसार प्रवास आदि चित्र आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर आर्य समाज के प्रधान हरिसिंह सैनी, रमेश लोखा, अनिल कुमार, प्राचार्य डॉ विक्रमजीत सिंह, डॉ सुरेश शर्मा, मंजीत सिंह, अनिल शर्मा, विजय सिंह, चेतन शर्मा, डॉ मोनिका कक्कड़, डॉ महेंद्र सिंह, डॉ विक्रम श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

आर्य समाज के योगदान को दर्शाते चित्रों की प्रदर्शनी लगाई

जागरण संघटन हिंसा : दयानन्द महाविद्यालय, हिंसा के इतिहास विभाग के आर्यसमाज के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्विशताब्दी समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्विशताब्दी समारोह का कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा वर्षभर आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह में दयानन्द महाविद्यालय में प्रचार स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनवृत्त कार्यों और आर्य समाज के योगदान को दर्शाते हुए दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में स्वामी का टकारा (गुजरात) में प्रारम्भिक जीवन, गुरु बिरजानन्द से शिक्षा, आर्यसमाज की स्थापना, विभिन्न तरह के कार्यों, देश में जीवन आर्य समाज की



दयानन्द महाविद्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए गणमान्य। • विज्ञापित

शिक्षण संस्थाएं डीएवी एवं गुरुकुल प्रणाली, लाला लाजपत का हिंसा प्रवास, हिंसा क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों और स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को दर्शाते चित्र आकर्षण का केन्द्र रहे।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि

चौ. हरि सिंह सैनी, प्रधान, आर्य समाज लाला लाजपत राय चौक, नागोरी गेट, रमेश लीखा, सचिव, डीएवी मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली और अनिल कुमार सहायक निदेशक डिविजनल अभिलेखागार एवं देवेन्द्र उप्पल, सदस्य, डीएवी कालेज

मैनेजमेंट कमेटी, नई दिल्ली रहे। कालेज में सर्वप्रथम विशेष यज्ञ का आयोजन ब्राह्म महाविद्यालय के प्राचार्य डा. प्रमोद योगार्थी के द्वारा किया गया। फिर प्रदर्शनी का अवलोकन रहा।

डा. महेंद्र सिंह, इतिहास विभाग द्वारा प्रदर्शनी का उद्देश्य, महत्व, आर्य समाज की भूमिका व महत्व और स्वामी दयानन्द के जीवन दर्शन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथि चौधरी हरि सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को सीख दी कि वे स्वामी दयानन्द से प्रेरणा लें। रमेश लीखा द्वारा आर्य समाज के मूल्यों व आदर्शों को रेखांकित किया गया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को वर्णित किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई

माई सिटी रिपोटर

हिस्सार। दयानंद महाविद्यालय के इतिहास विभाग के आर्यसमाज के संयुक्त उल्हासघान में स्वामी दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनकृत कार्यों व आर्य समाज के योगदान को दर्शाते हुए दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई।

विशिष्ट अतिथि आर्य समाज नगोरी गेट के प्रधान चौधरी हरि सिंह सैनी, डीएचडी मैनेजमेंट कमेटी के सचिव रमेश लोखा, अभिलेखागार विभाग के सहायक निदेशक अनिल कुमार देवेन्द्र उपस्थित रहे।

स्वात्म महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रमोद योगाधी ने हार्दिक स्वागत किया। प्रदर्शनी



हिस्सार में दयानंद महाविद्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन करते अतिथिगण। मंच

में स्वामी दयानंद सरस्वती का टकारा (गुजरात) में प्रारम्भिक जीवन, गुरु बिरजानन्द दंडी से शिक्षा, आर्यसमाज की स्थापना, विभिन्न तरह के कार्यों, अजमेर में जीवन आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएँ डीएचडी एवं गुरुकुल प्रणाली, लाला लाजपत का हिस्सार प्रवास, हिस्सार क्षेत्र में आर्य समाज की गतिविधियों तथा स्वातंत्रता

संग्रह में आर्य समाज की भूमिका को दर्शाते चित्र आकर्षण का केंद्र रहे। महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा स्थापित संग्रहालय व अभिलेखागार का अवलोकन भी किया। आर्य समाज प्रभारी डॉ. मोनिका कक्कड़ ने अतिथियों का अभिवादन किया तथा कार्यक्रम का परिचय भी दिया। डॉ. महेंद्र सिंह, इतिहास

विभाग द्वारा प्रदर्शनी का उद्देश्य, महत्व आर्य समाज की भूमिका व महत्व तथा स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। चौधरी हरि सिंह सैनी ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को संबोधित कर कहा कि वे स्वामी दयानंद से प्रेरणा लें। रमेश लोखा ने स्वातंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका को उजागर किया। अनिल कुमार ने आर्य समाज से संबंधित दस्तावेजों व उनकी रखरखाव के महत्व पर जोर दिया। प्रधान डॉ. विक्रमजीत सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में इस विषय पर गतिविधियाँ वर्षभर चलेंगी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुरेश शर्मा ने किया। इस मौके पर मन्जीत सिंह, अनिल शर्मा, विजय, चेतन सुरेंद्र सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।



डीएन कालेज के विद्यार्थियों ने किया फिरोज शाह के किले का भ्रमण

पाठकपक्ष न्यूज

हिंसार, 28 फरवरी : दयानंद महाविद्यालय हिंसार के तत्वाधान में गत दिवस नगर स्थित फिरोज शाह के किले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण में कॉलेज के इतिहास विभाग के साथ साथ रक्षा अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों की भी सहभागिता रही। ऐतिहासिक भ्रमण के उद्देश्य से विद्यार्थी सर्वप्रथम कॉलेज के महात्मा हंसराज हाल में एकत्रित हुए। भ्रमण से पहले विद्यार्थियों को निर्देश दिए तथा समूहों में बांटा गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के जीवन में ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए इतिहास के बोध के साथ वर्तमान में सुधार



करने का प्रयास करना चाहिए। इस फील्ड विजिट द्वारा विद्यार्थियों को किले की ऐतिहासिकता, निर्माण शैली तथा हिंसार के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह ने

इस समूह को विस्तार से विभिन्न पक्षों की जानकारी दी जिसमें स्पष्ट किया की किले का निर्माण मार्च 1354 से अक्टूबर 1356 के बीच मलिक दानियाल नागोरी की देखरेख में हुआ। किले में सुल्तान के सिंहासन स्थल, दीवान ए आम, दीवान ए

खास, लाट की मस्जिद, पानी की व्यवस्था तथा आवास की जानकारी दी गयी, विश्राम गृह, तहखाने तथा शासक के आवास की जानकारी दी गयी। इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रो. डॉ. सुरुचि शर्मा द्वारा किले के विभिन्न पक्ष बताये गये। इसी तरह इतिहास विभाग के प्राध्यापक श्री महेंद्र सिंह ने भी किले की महत्ता पर प्रकाश डाला। भ्रमण के उपरांत विद्यार्थियों के लिए प्रश्न सभा रखी गयी जिसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शिक्षकों ने शांत किया। इसमें रक्षा अध्ययन विभाग से डॉ. प्रमोद कुमार तथा डॉ. रविंदर कुमार भी उपस्थित रहे। इस भ्रमण में कॉलेज के 200 से अधिक छात्र, शिक्षक तथा गैर शिक्षक स्टाफ के सदस्यों की भागीदारी रही।

डीएन कॉलेज के छात्रों ने किया किले का भ्रमण

भास्कर न्यूज | हिसार

दयानंद महाविद्यालय के इतिहास व रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा फिरोजशाह किले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण में कॉलेज के इतिहास विभाग के साथ साथ रक्षा अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों की भी सहभागिता रही। प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के जीवन में ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है।


इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रो. डा. सुरुचि शर्मा द्वारा किले के विभिन्न पक्ष बताये गये। इस अवसर पर डा. प्रमोद कुमार तथा डा. रविंदर कुमार भी उपस्थित रहे।

दयानंद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया किले का भ्रमण

माई सिटी रिपोर्टर

हिसार। दयानंद महाविद्यालय के विद्यार्थियों को फिरोज शाह के किले का भ्रमण कराया गया। कॉलेज के इतिहास विभाग के साथ साथ रक्षा अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों की भी सहभागिता रही।


इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि किले का निर्माण मार्च 1354 से अक्टूबर 1356 के बीच मलिक दानियाल नागोरी की देखरेख में हुआ। किले में सुल्तान के सिंहासन स्थल, दीवान ए आम की मस्जिद की जानकारी दी। एसोसिएट प्रो. डॉ. सुरुचि शर्मा, डॉ. प्रमोद कुमार तथा डॉ. रविंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।



फिरोजशाह के किले का भ्रमण करते दयानंद महाविद्यालय के विद्यार्थी।

विज्ञप्ति

विद्यार्थियों के लिए ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होना महत्वपूर्ण : प्राचार्य



फिरोज शाह के किले का भ्रमण करते हुए दयानंद कालेज के विद्यार्थी • विज्ञप्ति

जगरण संवहदाता, हिसार : दयानंद महाविद्यालय हिसार के तत्वाधान में सोमवार नगर स्थित फिरोज शाह के किले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण में कालेज के इतिहास विभाग के साथ रक्षा अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों की भी सहभागिता रही। ऐतिहासिक भ्रमण के उद्देश्य से विद्यार्थी सर्वप्रथम कालेज के महात्मा हंसराज हाल में एकत्रित हुए। भ्रमण से पहले विद्यार्थियों को निर्देश दिए और समूहों में बांटा गया।

कालेज के प्राचार्य डा. विक्रमजीत सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के जीवन में ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए इतिहास के बोध के साथ वर्तमान में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा. महेंद्र सिंह ने इस समूह को विस्तार से विभिन्न पक्षों की जानकारी दी जिसमें स्पष्ट किया

- दयानंद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने फिरोज शाह के किले का भ्रमण किया
- विश्राम गृह, तहखाने और शासक के आवास की दी जानकारी

की किले का निर्माण मार्च 1354 से अक्टूबर 1356 के बीच मलिक दनियाल नागोरी की देखरेख में हुआ। किले में सुल्तान के सिंहासन स्थल, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, लाट की मस्जिद, पानी कं व्यवस्था तथा आवास की जानकारी दी गई। इसके अलावा विश्राम गृह तहखाने और शासक के आवास की जानकारी दी गई। इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रो. डा. सुरचि शर्मा द्वारा किले के विभिन्न पक्ष बताए गए इतिहास विभाग के प्राध्यापक महेंद्र सिंह ने किले की महत्ता पर प्रकाश डाला। अंत विद्यार्थियों के लिए प्रश्न सभा रखी गई, जिसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शिक्षकों ने शांत किया।

 **GPS Map Camera**

Hisar, Haryana, India

5P9R+3H2, Guru Jambheshwar University of Science and
Technology, Hisar, Haryana 125001, India


Lat 29.166949°


Long 75.741052°

25/02/23 11:27 AM GMT +05:30





Google




 **GPS Map Camera**

Hisar, Haryana, India
5P9R+3H2, Guru Jambheshwar University of Science and
Technology, Hisar, Haryana 125001, India
Lat 29.166949°
Long 75.741052°
25/02/23 11:25 AM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**


Hisar, Haryana, India

**5P9R+3H2, Guru Jambheshwar University of Science and
Technology, Hisar, Haryana 125001, India**

Lat 29.166949°

Long 75.741052°

25/02/23 11:25 AM GMT +05:30



Google





Hisar, Haryana, India
5P57+9XG, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana 125001,
India
Lat 29.158712°
Long 75.714846°
13/04/23 11:51 AM GMT +05:30




Hisar, Haryana, India
5P57+9XG, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana 125001,
India
Lat 29.158712°
Long 75.714846°
13/04/23 11:51 AM GMT +05:30



GPS Map Camera

Hisar, Haryana, India
5P57+9XG, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana 125001,
India
Lat 29.158712°
Long 75.714846°
13/04/23 11:51 AM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

Hisar, Haryana, India
5P57+9XG, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana 125001,
India
Lat 29.158712°
Long 75.714846°
13/04/23 11:54 AM GMT +05:30



Google



 GPS Map Camera



Hisar, Haryana, India

5P57+9XG, Aggarwal Colony, Hisar, Haryana 125001,
India

Lat 29.158712°

Long 75.714846°

13/04/23 11:54 AM GMT +05:30





PeopleLink
e-Podium Ultra
www.peoplelinkvc.com